

विधान सभा सचिवालय
मध्य प्रदेश
समाचार

समाजसेवियों, धर्माचार्यों एवं विधानसभा के कर्मचारियों-अधिकारियों के सहयोग से होगा मंदिर का जीर्णोद्धार
विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने मंदिर में निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन
समाजसेवी विनोद शुक्ला की मंदिर निर्माण में रहेगी सक्रिय भूमिका

भोपाल दिनांक 5 जनवरी, 2023

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने गुरुवार को विधानसभा परिसर स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार किए जाने हेतु निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार समाजसेवियों, धर्माचार्यों, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा।

विधानसभा परिसर में मंदिर में मां दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित है तथा मंदिर परिसर में अन्य भगवानों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मां दुर्गा जी की प्रतिमा वर्तमान में छोटे से मंदिर में विराजमान है। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होने के कारण झुक कर ही प्रवेश हो पाता है, बैठने का स्थान भी बहुत कम है तथा मंदिर के छोटे से गुंबद पर शेड डला हुआ है। जगह बहुत कम होने के कारण विधानसभा के स्टॉफ को पूजन- अर्चन में कठिनाई होती है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंदिर के जीर्णोद्धार के तहत मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा किया जाएगा और छत भी डाली जाएगी।

श्री गौतम ने भूमिपूजन के अवसर पर अपने उद्बोधन कहा कि मैं भी विधानसभा परिवार का सदस्य हूं। आज मैं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते 21000 रुपए का आर्थिक सहयोग देता हूं। श्री गौतम ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के अधिकारी/ कर्मचारियों के योगदान से मंदिर के जीर्णोद्धार निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। श्री गौतम ने विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार न्यूनतम रुपए 11/- और अधिकतम रुपए 1000/- तक ही आर्थिक सहयोग दिए जाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि जो राशि एकत्रित होगी उसे बैंक में नया खाता खुलवा कर जमा किया जाएगा तथा जिसने भी आर्थिक योगदान दिया है उनको रसीद भी उपलब्ध कराई जाएगी। सहयोग राशि एकत्रित करने हेतु श्री गौतम ने अधिकारियों/ कर्मचारियों की एक समिति बनाई जाने की भी घोषणा की। मंदिर निर्माण में समाजसेवी एवं निर्माण विशेषज्ञ श्री विनोद शुक्ला की भी सक्रिय भूमिका रहेगी।

मीडिया द्वारा निर्माण कार्य की समयावधि पूछे जाने पर श्री गौतम ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण कार्य आगामी बजट सत्र, 2023 के पूर्व हो जाएगा तथा जब मंदिर पूर्ण रूप से बन जाएगा तब यहां पर एक भंडारा भी आयोजित किया जाएगा जिसमें मीडिया बंधुओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।

भूमि पूजन के इस अवसर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव, श्री अवधेश प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में विधानसभा के अन्य अधिकारी - कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

विस/ जसं/ 23

नरेंद्र मिश्रा
अवर सचिव